

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22—अगस्त 28, 2015 (श्रावण 31, 1937)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22—AUGUST 28, 2015 (SRAVANA 31, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2015

रक्षा (एम एस)

सं. 201, दिनांक 4 अगस्त 2015—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जून 2015 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

अवैतनिक (वायु) ए.डी.सी.

एयर मार्शल आर. राय वा.मे. (14669) एफ(पी)

एयर मार्शल के. एस. गिल अ.वि.से.मे. यु.से.मे. वा.मे. (15220) एफ(पी)

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 202, दिनांक 5 अगस्त 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै. बनाया जाता है

पार्थ कल्याण	(टीए-42963)	(इन्फैन्ट्री)	23 जनवरी 2015
राघव राज सिंह रानावत	(टीए-42968)	(इन्फैन्ट्री)	01 मार्च 2015
समीर गोडबोले	(टीए-42970)	(इन्फैन्ट्री)	26 फरवरी 2015
ऐ शरद नायडु	(टीए-42971)	(इन्फैन्ट्री)	15 मार्च 2015
अनुराग सिंह चौकसे	(टीए-42972)	(इन्फैन्ट्री)	24 मार्च 2015
अदित्य दहिया	(टीए-42973)	(इन्फैन्ट्री)	01 अप्रैल 2015
नवीन अंवालागन	(टीए-42974)	(इन्फैन्ट्री)	09 अप्रैल 2015
सुर्याप्रकाश कोमपाली	(टीए-42975)	(इन्फैन्ट्री)	18 अप्रैल 2015
रोहित श्रीवास्तव	(टीए-42976)	(इन्फैन्ट्री)	12 मई 2015
देवेन्द्र सिंह	(टीए-42977)	(इन्फैन्ट्री)	08 जून 2015
परशराम दलवी	(टीए-42961)	(इन्फैन्ट्री)	22 जनवरी 2015
प्रोतीक सेनगुप्ता	(टीए-42962)	(इन्फैन्ट्री)	22 जनवरी 2015
कोहितो अचुमी	(टीए-42964)	(इन्फैन्ट्री)	25 जनवरी 2015
नील शाजी	(टीए-42967)	(इन्फैन्ट्री)	23 जनवरी 2015

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस-38658के पूर्व मेजर कुन्दन लाल पांडे अब टी ए-42929एन लैपटीनेन्ट कुन्दन लाल पांडे को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 18 जून 2014 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 09 साल तथा 60 दिन (दिनांक 02 सितम्बर 2000 से 31 अक्टूबर 2009) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 18 अप्रैल 2005 से लैपटीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 18 जून 2014 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 18(1)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 18 अप्रैल 2009 से कैप्टन तथा 18 अप्रैल 2013 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

पिछली तिथि से वरीयता

आई सी-62874 पूर्व मेजर विकास घनखर अब टी ए-42928एल लैपटीनेन्ट विकास घनखर को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 13 जून 2014 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 11 साल 03 माह तथा 22 दिन (दिनांक 10 दिसम्बर 2002 से 31 मार्च 2014) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 21 फरवरी 2003 से लैपटीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 13 जून 2014 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 18(1)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 21 फरवरी 2007 से कैप्टन तथा 21 फरवरी 2011 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस-42398एफ पूर्व लैपटीनेन्ट चेतन शर्मा अब टी ए-42946एन लैपटीनेन्ट चेतन शर्मा को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 29 सितम्बर 2014 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 05 साल 11 महीने 17 दिन (दिनांक 17 मार्च 2007 से 16 मार्च 2012 तथा 20 मार्च 2005 से पिछली तिथि की वरीयता) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 12 अक्टूबर 2008 से

लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 29 सितम्बर 2014 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 18(1)/2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 12 अक्टूबर 2012 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 203, दिनांक 6 अगस्त 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एस पी एस कोचर (एमआर-04152वाई)	—	10-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-05-14 से दी जाती है।
सुधीर राय (एमआर-04265एफ)	—	30-04-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-04-15 से दी जाती है।
ए के शर्मा (एमआर-04267एम)	—	01-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-15 से दी जाती है।

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

एस सी गुप्ता (एमआर-05043वाई)(76163-वाई)	—	17-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-09-12 से दी जाती है।
--	---	---

ले. कर्नल (टीएस) (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

आर जयसवाल (एमआर-07045एच)	—	17-04-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-01-14 से दी जाती है।
-----------------------------	---	---

ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

एमआर-05634ए	ले. कर्नल	वी एस खुंगा	01 जून 2012
एमआर-06065के	ले. कर्नल	दीप शर्मा	01 दिसंबर 2014
एमआर-06139एन	ले. कर्नल	सुबोध कुमार	04 फरवरी 2015
एमआर-07043एक्स	ले. कर्नल	पी के जसपाल	16 फरवरी 2015
एमआर-06704ए	ले. कर्नल	पी टी सेल्वाराज	22 अप्रैल 2015
एमआर-07144एल	ले. कर्नल	अनु लाल	09 मार्च 2014
एमआर-07140पी	ले. कर्नल	भाषवती घोष	01 सितंबर 2011
एमआर-06005पी	ले. कर्नल	असीम टंडन	01 जून 2014
एमआर-06013एन	ले. कर्नल	एस के शैले	08 जून 2014
एमआर-06314एक्स	ले. कर्नल	राजीव एम आर	22 अक्टूबर 2014
एमआर-06082के	ले. कर्नल	एस के रस्तोगी	01 दिसंबर 2014
एमआर-06026एल	ले. कर्नल	एस नारायण	01 दिसंबर 2014

एमआर-06056एच	ले. कर्नल	राजेश खन्ना	01 दिसंबर 2014
एमआर-06068एक्स	ले. कर्नल	सुनील जैन	01 दिसंबर 2014
एमआर-06079के	ले. कर्नल	पी खंडूरी	01 दिसंबर 2014
एमआर-06077वाई	ले. कर्नल	ए एस कुशवाहा	01 दिसंबर 2014
एमआर-06081एफ	ले. कर्नल	के डी सिंह	01 दिसंबर 2014
एमआर-06144वाई	ले. कर्नल	सतीश कुमार	19 दिसंबर 2014
एमआर-06145एफ	ले. कर्नल	अभय सिंह	19 दिसंबर 2014

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-05829एल (एएफ-19585एल)	विंग कमांडर	सजन सेठी	01 जून 2013
एमआर-06702पी (एएफ-20801एफ)	विंग कमांडर	टी भारती	10 नवंबर 2013
एमआर-05984एम (एएफ-19983एन)	विंग कमांडर	मुदित शर्मा	01 दिसंबर 2013
एमआर-05985पी (एएफ-19984एस)	विंग कमांडर	प्रशांत गुप्ता	01 दिसंबर 2013
एमआर-05995वाई (एएफ-20107आर)	विंग कमांडर	समिधा द्विवेदी	28 दिसंबर 2013
एमआर-06007ए (एएफ-20184एच)	विंग कमांडर	एम एल थंबी	01 जून 2014
एमआर-06705एच (एएफ-21391जी)	विंग कमांडर	टी ललीथा	20 फरवरी 2015
एमआर-06706एल (एएफ-21390बी)	विंग कमांडर	एस सैनी	28 फरवरी 2015

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-06457एक्स (75429-बी)	सर्ज कमांडर	के बी राना	12 जनवरी 2012
एमआर-06176एफ (75477-एन)	सर्ज कमांडर	एस मुरलीकृष्णन	09 मार्च 2014

लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

एस एन गणेशन	(एमआर-08733एन) एएमसी	05 अक्टूबर 2012
बसुन्दारा रॉय	(एमआर-08684डब्ल्यू) एएमसी	07 जनवरी 2014
मोनाल कंसरा	(एमआर-08329वाई) एएमसी	19 फरवरी 2014
अरुण कुमार यादव	(एमआर-07737एक्स) एएमसी	04 मार्च 2014
बिरादर मल्हारी विश्वम्बर	(एमआर-08816वाई) एएमसी	06 मार्च 2014
अतुल शर्मा	(एमआर-08402एम) एएमसी	22 मार्च 2014
अमित कुमार	(एमआर-07808एन) एएमसी	02 अगस्त 2014
शमिक केआर पौल	(एमआर-07799एक्स) एएमसी	02 अगस्त 2014
संतोष कुमार मिश्रा	(एमआर-08223एम) एएमसी	25 फरवरी 2013
जफर हुसैन	(एमआर-07733एफ) एएमसी	04 मार्च 2014
सुशील कुमार	(एमआर-08307ए) एएमसी	08 मार्च 2014
विशाल चोपरा	(एमआर-08618एन) एएमसी	27 नवम्बर 2014
प्रशान्ता कुमार दाश	(एमआर-08506एन) एएमसी	28 नवम्बर 2014
कुमार पुष्कर	(एमआर-08726एक्स) एएमसी	03 दिसम्बर 2014
प्रतीक यादव	(एमआर-08709एक्स) एएमसी	04 दिसम्बर 2014

अरुण प्रसाद बी	(एमआर-08400एफ)	एमसी	10 दिसम्बर 2014
रूपसिंह परमार	(एमआर-08971ए)	एमसी	16 दिसम्बर 2014
दीपक ए द्विवेदी	(एमआर-08908एल)	एमसी	16 दिसम्बर 2014
रोहित टंडन	(एमआर-08460डब्ल्यू)	एमसी	07 अप्रैल 2014
गौरव मोंगा	(एमआर-08729एल)	एमसी	06 नवम्बर 2014
ए डब्ल्यू काशिक	(एमआर-07859एफ)	एमसी	04 जनवरी 2015
अशोक कुमार	(एमआर-07858वाई)	एमसी	04 जनवरी 2015
आशुतोष चतुर्वेदी	(एमआर-07901पी)	एमसी	04 जनवरी 2015
अभिजीत अवस्थी	(एमआर-07905एल)	एमसी	04 जनवरी 2015
किरण उपाध्याय	(एमआर-07866एक्स)	एमसी	04 जनवरी 2015
विनय कुमार शर्मा	(एमआर-07876एफ)	एमसी	04 जनवरी 2015
जीतेन्द्र शर्मा	(एमआर-07897एक्स)	एमसी	04 जनवरी 2015
टी पी शशिकला	(एमआर-07849एक्स)	एमसी	04 जनवरी 2015
यमुना जय किशन	(एमआर-08316एफ)	एमसी	21 जनवरी 2013
स्वेता सिन्हा	(एमआर-08901एफ)	एमसी	21 जनवरी 2013
नितिका सिंह	(एमआर-07749एम)	एमसी	04 मार्च 2014
आशीष कुमार शुक्ला	(एमआर-08750एन)	एमसी	04 दिसम्बर 2014
आर प्रवीन	(एमआर-08392एल)	एमसी	09 दिसम्बर 2014
एन मागेश कुमार	(एमआर-08388एल)	एमसी	09 दिसम्बर 2014
गौतम सिंह	(एमआर-08508वाई)	एमसी	03 जनवरी 2015
मनोज कुमार	(एमआर-07884ए)	एमसी	04 जनवरी 2015
परेश सिंघल	(एमआर-07893एफ)	एमसी	04 जनवरी 2015
हरमनजोत सिंह ढिल्लों	(एमआर-07889वाई)	एमसी	04 जनवरी 2015
बादल पारिख	(एमआर-07862एफ)	एमसी	04 जनवरी 2015
सिरीषा अन्ने	(एमआर-07911वाई)	एमसी	04 जनवरी 2015
अर्पित गर्ग	(एमआर-07907डब्ल्यू)	एमसी	04 जनवरी 2015
संकल्प सेठ	(एमआर-07875वाई)	एमसी	04 जनवरी 2015
मुकुल वाजपेयी	(एमआर-07635एफ)	एमसी	28 सितम्बर 2013
ओमना साकी	(एमआर-08293एल)	एमसी	26 फरवरी 2014
अजित भरद्वाज	(एमआर-08302एफ)	एमसी	02 अप्रैल 2014
जी दिव्या रेड्डी	(एमआर-07886एल)	एमसी	04 जनवरी 2015
रजत चौधरी	(एमआर-09500 वाई)	एमसी	22 जनवरी 2015
कोमल शर्मा	(एमआर-08932 एफ)	एमसी	17 फरवरी 2015
आनन्त बाबू चिरुमामोला	(एमआर-07922एल)	एमसी	22 फरवरी 2015
जनमित सिंह कुल्लर	(एमआर-07918एच)	एमसी	22 फरवरी 2015
अंकुर जोशी	(एमआर-07863 के)	एमसी	01 मार्च 2015
राकेश शर्मा	(एमआर-07898ए)	एमसी	04 जनवरी 2015

आलोक जयसवाल	(एमआर-08481एम)	एएमसी	17फरवरी 2015
अनुराग जैन	(एमआर-08469 एल)	एएमसी	17फरवरी 2015
निमिष गौर	(एमआर-08691एम)	एएमसी	17फरवरी 2015
श्रीशैल बेलगावी	(एमआर-08486एल)	एएमसी	17फरवरी 2015
गौरव मित्तल	(एमआर-07722पी)	एएमसी	04 मार्च 2014
सीमा शर्मा	(एमआर-08476एफ)	एएमसी	08 दिसम्बर 2014
तनु त्रिपाठी	(एमआर-08478एम)	एएमसी	09 दिसम्बर 2014
देवेन्द्र कुमार गुप्ता	(एमआर-07864एम)	एएमसी	04 जनवरी 2015
प्रमील कुमार	(एमआर-07896पी)	एएमसी	04 जनवरी 2015
पुनीत अग्गार्वल	(एमआर-07874डब्ल्यू)	एएमसी	04 जनवरी 2015
रिचा जोशी	(एमआर-07869एल)	एएमसी	04 जनवरी 2015
गिरीश कुमार परगनिहा	(एमआर-07895एम)	एएमसी	04 जनवरी 2015
मुनीश शर्मा	(एमआर-07899एच)	एएमसी	04 जनवरी 2015
सुनिल गोयल	(एमआर-07882पी)	एएमसी	04 जनवरी 2015
धीरज कुमार	(एमआर-07892वाई)	एएमसी	04 जनवरी 2015
मन्वेंदु झा	(एमआर-07885एच)	एएमसी	04 जनवरी 2015
प्रिंस अरविन्द	(एमआर-079107डब्ल्यू)	एएमसी	04 जनवरी 2015
गोविन्द मेनन	(एमआर-07852एक्स)	एएमसी	04 जनवरी 2015
एरंकी सिबि	(एमआर-07850एम)	एएमसी	04 जनवरी 2015
जितेन्द्र कुमार शर्मा	(एमआर-08412डब्ल्यू)	एएमसी	21 जनवरी 2013
राहुल सिन्हा	(एमआर-07705पी)	एएमसी	04 मार्च 2014
ज्ञान रंजन	(एमआर-07806एच)	एएमसी	02 अगस्त 2014
रजनीश कुमार	(एमआर-07904एच)	एएमसी	04 जनवरी 2015
मनिष प्रसाद	(एमआर-07887एन)	एएमसी	04 जनवरी 2015
मदामूपी श्याम	(एमआर-07851पी)	एएमसी	04 जनवरी 2015
पुनीत सक्सेना	(एमआर-07846के)	एएमसी	04 जनवरी 2015
अतुल कुमार श्रीवास्तव	(एमआर-07871एच)	एएमसी	04 जनवरी 2015
विजय बोरा	(एमआर-07883एक्स)	एएमसी	04 जनवरी 2015
सुयश गोयल	(एमआर-07912एफ)	एएमसी	04 जनवरी 2015
कमलेश कुमार सिंह	(एमआर-07900 एम)	एएमसी	04 जनवरी 2015
शिवानी	(एमआर-08940 ए)	एएमसी	22 जनवरी 2015
विनोद कुमार	(एमआर-08620एल)	एएमसी	27 जनवरी 2015
मेजर के पद पर			
अर्शिया	(एमआर-09501एफ)	आर्मी	30 दिसम्बर 2013
मदन गोपाल विष्णोई	(एमआर-09299वाई)	एएमसी	26 फरवरी 2013
प्रीतम प्रियांसु पुरोहित	(एमआर-08879एफ)	एएमसी	11 फरवरी 2014
संजय सिंह रावल	(एमआर-08883के)	एएमसी	11 फरवरी 2014

लव कुमार तोमर	(एमआर-08877डब्ल्यू)	एएमसी	11 फरवरी 2014
रंकीन राज	(एमआर-08869एक्स)	एएमसी	11 फरवरी 2014
गर्वित बग्गा	(एमआर-08846डब्ल्यू)	एएमसी	11 फरवरी 2014
सफल मुहम्मद एम के	(एमआर-08652एन)	एएमसी	01 फरवरी 2013
सन्नी पठानिया	(एमआर-09006 एच)	एएमसी	10 फरवरी 2015
अंकुर रावत	एमआर-09008एन)	एएमसी	10 फरवरी 2015
पुष्पाश्री आचार्य	(एमआर-09012-डब्ल्यू)	एएमसी	10 फरवरी 2015
अजय कुमार शर्मा	(एमआर-09014-एफ)	एएमसी	10 फरवरी 2015
संजीव मलिक	(एमआर-09017-पी)	एएमसी	10 फरवरी 2015
प्रत्युश चन्द्र मधुर	(एमआर-09030-वाई)	एएमसी	10 फरवरी 2015
शिवी गुप्ता	(एमआर-09033-एम)	एएमसी	10 फरवरी 2015
सतीश कुमार गोदरा	(एमआर-09043-डब्ल्यू)	एएमसी	10 फरवरी 2015
अभिषेक श्रीवास्तव	(एमआर-09441एक्स)	एएमसी	28 जुलाई 2013
विकास वर्मा	(एमआर-09416 वाई)	एएमसी	14 अगस्त 2013
अरुनजीत सिंह	(एमआर-09504पी)	एएमसी	22 जनवरी 2014
अरविंद कुमार यादव	(एमआर-09498 एम)	एएमसी	01 फरवरी 2013
अमित कुमार गर्ग	(एमआर-09013वाई)	एएमसी	10 फरवरी 2015
कुमार आनन्द श्रुति राज	(एमआर-09003पी)	एएमसी	10 फरवरी 2015
शिल्पा वाजपेयी	(एमआर-09021एक्स)	एएमसी	10 फरवरी 2015
नितेश कुमार	(एमआर-09018एक्स)	एएमसी	10 फरवरी 2015
निर्वेश सक्सेना	(एमआर-09020-पी)	एएमसी	10 फरवरी 2015
रितेश आचार्य	(एमआर-08999- ए)	एएमसी	10 फरवरी 2015
शर्मा प्रदीप बृजकिशोर	(एमआर-08965 एम)	एएमसी	06 सितम्बर 2011
अनुभव सिंह	(एमआर-09027वाई)	एएमसी	10 फरवरी 2015
थकचोम विश्वजीत सिंह	(एमआर-09038एल)	एएमसी	10 फरवरी 2015
महेश मुरलीधरन थुंडाथिल	(एमआर-09023एच)	एएमसी	10 फरवरी 2015
बालचन्द्र मेनन	(एमआर-09036ए)	एएमसी	10 फरवरी 2015
दीपू वी जोय	(एमआर-09031एफ)	एएमसी	10 फरवरी 2015
के वी विनू बलराम	(एमआर-08984एक्स)	एएमसी	10 फरवरी 2015
अमन ढिल्लन	(एमआर-08990एल)	एएमसी	10 फरवरी 2015
सोनल खण्डेलवाल	(एमआर-08993वाई)	एएमसी	10 फरवरी 2015
राहुल गोयल	(एमआर-08996एम)	एएमसी	10 फरवरी 2015
ऋत्विक् मिश्रा	(एमआर-09032के)	एएमसी	10 फरवरी 2015
संजोग त्रिपाठी	(एमआर-09005ए)	एएमसी	10 फरवरी 2015
रंजन कुमार	(एमआर-09007एल)	एएमसी	10 फरवरी 2015
आदिल ए कलाम	(एमआर-09042एन)	एएमसी	10 फरवरी 2015

सर्जन लेफ्ट कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

सौरभ टंडन	(एम आर —08523 एन) (75829एन),	एएमसी	01 जनवरी 2015
पार्था भूयन	(एम आर —08619 डब्ल्यू) (75831टी),	एएमसी	13 जनवरी 2015
अपर्णा कृष्णमूर्ति	(एम आर—09105 एल) (75935बी),	एएमसी	22 जनवरी 2015
सदाफ सहीन	(एम आर —08592 के) (75850के),	एएमसी	27 जनवरी 2015
महेश सिंह हाडा	(एम आर —08248वाई) (75785एन),	नेवी	21 जनवरी 2013
राजूरकर मकरन्द त्रिम्बकराव	(एम आर —08250डब्ल्यू) (75793एफ)	नेवी	21 जनवरी 2013
हरिन्दर सिंह	(एम आर —07719पी) (75805एच)	नेवी	04 मार्च 2014
सौरभ भूटानी	(एम आर —07748के) (75982के)	नेवी	04 मार्च 2014
उदय आई बी	(एम आर —8903एम) (75847बी)	नेवी	29 सितंबर 2014
ब्रजेश कुमार सोनी	(एमआर —08464 एम) (75825बी)	नेवी	28 नवम्बर 2014
भरत खेमजी जानी	(एम आर —08465पी) (75827एच)	नेवी	06 दिसम्बर 2014
मिरजा सलीम अमजद	(एम आर —07868एच) (75812जेड)	नेवी	04 जनवरी 2015
अजय नाथन	(एम आर —08480के) (75830आर)	नेवी	05 जनवरी 2015

सर्जन लेफ्ट से सर्जन लेफ्ट कमांडर के पद पर

मानस रंजन मिश्रा	(एमआर—08991—एन) (76089—बी)	एएमसी	10 फरवरी 2015
फहीम राजा	(एमआर—08998—एक्स) (76088—ए)	एएमसी	10 फरवरी 2015
स्वाती गर्ग	(एमआर 08927डब्ल्यू) (76035एफ)	एएमसी	10 अगस्त 2014
राजीव रंजन दूबे	(एमआर 08988जेड) (76087एन)	एएमसी	10 फरवरी 2015

विंग कमांडर के पद पर

राज कुमार पी सजाने	(एमआर—08431एफ) (एएफ—26066एल)	एएमसी	18 जनवरी 2012
एम हरीश कुमार	(एमआर—07867ए) (एएफ—26938 एच)	एएमसी	04 जनवरी 2015
संगप्पा शंकर राव	(एमआर—08441 एल) (एएफ—26473आर)		05 जुलाई 2012
थ्येल्लै डान खालिंग	(एमआर—08435एक्स) (एएफ—26496एस)		21 जनवरी 2013
पारुल गोयल	(एमआर—08492वाई) (एएफ—27640एल)		24 नवम्बर 2014
करम चंद्रजीत सिंह	(एमआर—07890एन) (एएफ—26940एफ)		04 जनवरी 2015
राज मोहन	(एमआर—07693एल) (एएफ—26907हेच)	एएमसी	04 मार्च 2014
विजोय कुमार झा	(एमआर—07741ए) (एएफ—26909आर)	एएमसी	04 मार्च 2014
अनुज सिंघल	(एमआर—07718एम) (एएफ—26912आर)	एएमसी	04 मार्च 2014
सचिन राठौर	(एमआर—09093एफ) (एएफ—28868आर)	एएमसी	22 सितम्बर 2014

स्कवाड्रन लीडर के पद पर

विनिल आई एलिन्जीकल	(एमआर—08928वाई) (एएफ—30704टी)	—10 अगस्त 2014
--------------------	-------------------------------	----------------

धर्मवीर सिंह
ब्रिगे.
उप महानिदेशक (मा.सं.)

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं. 204, दिनांक 7 अगस्त 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हैं —

कर्नल से ब्रिगेडियर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ब्रिगेडियर परीनीता खन्ना	एन आर—17065 के	11 मार्च 2015
ब्रिगेडियर जी वसन्ता कुमारी	एन आर—16945 एन	13 अक्टूबर 2014
ले. कर्नल (समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)		

ले० कर्नल उमा प्रधान	एन आर—18588 पी	07 मई 2014
ले० कर्नल श्रेसियम्मा टी के	एन आर—18693 एल	15 दिसम्बर 2014
ले० कर्नल सुषमा पटेल	एन आर—18704 एम	19 जनवरी 2015
ले० कर्नल मैरी जॉर्ज	एन आर—18519 वाई	03 फरवरी 2014
ले० कर्नल श्यामला एम जी	एन आर—18639 एक्स	20 अगस्त 2014
ले० कर्नल शांतिबाला के	एन आर—18666 एफ	01 अक्टूबर 2014
ले० कर्नल सुशीला जोसफ	एन आर—18485 डब्ल्यू	20 अगस्त 2014
ले० कर्नल नीलम कंवर	एन आर—18542 एम	20 अगस्त 2014
ले० कर्नल अनन्मा थॉमस	एन आर—18659 एल	01 अक्टूबर 2014
ले० कर्नल इशरत जहान	एन आर—18424 वाई	22 सितम्बर 2014
ले० कर्नल के लक्ष्मी	एन आर—18442 एफ	11 फरवरी 2014
ले० कर्नल शोभना एम वी	एन आर—18576 ए	25 अगस्त 2014
ले० कर्नल जैसी फिलिप	एन आर—18462 पी	20 अगस्त 2014

मेजर से ले० कर्नल (समयमान)

ले० कर्नल चन्द्राणी रायें	एन आर—20986 पी	21 फरवरी 2015
---------------------------	----------------	---------------

कैप्टन से मेजर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर पूजा उपाध्याय	एन एस—21603 के	22 सितम्बर 2014
मेजर रचना अग्रवाल	एन एस—21605 पी	22 सितम्बर 2014
मेजर शुभकामना थापा	एन एस—21606 एक्स	22 सितम्बर 2014
मेजर दिव्या एस नायर	एन एस—21612 एल	22 सितम्बर 2014
मेजर चित्रा बाबू	एन एस— 21613 एन	22 सितम्बर 2014
मेजर सुमन शेखावत	एन एस—21616 एफ	22 सितम्बर 2014
मेजर मोहिता सांम्बाल	एन एस—21618 एम	22 सितम्बर 2014
मेजर स्मिता साहू	एन एस—21619 पी	22 सितम्बर 2014
मेजर अनुराधा क्षेत्री	एन एस—21620 के	22 सितम्बर 2014
मेजर मधुमिता दास	एन एस—21622 पी	22 सितम्बर 2014

मेजर लता सुनदियाल	एन एस—21627 एन	22 सितम्बर 2014
मेजर बॉबिन जोसफ	एन एस—21630 एन	22 सितम्बर 2014
मेजर अन्जु एस वी	एन एस—21633 एफ	22 सितम्बर 2014
मेजर दीपिका	एन आर—21700 एफ	27 जनवरी 2015
मेजर नम्रता कृपलानी	एन आर—21701 के	27 जनवरी 2015
मेजर पूनम सिंह	एन आर—21702 एम	27 जनवरी 2015
मेजर जिशा जॉनसन	एन आर—21703 पी	27 जनवरी 2015
मेजर जानकी भट्ट	एन आर—21704 एक्स	27 जनवरी 2015
मेजर अनिता दास	एन आर—21705 ए	27 जनवरी 2015
मेजर अर्जिता रतूरी	एन आर—21706 एच	27 जनवरी 2015
मेजर मीनाक्षी मोहल	एन आर—21707 एल	27 जनवरी 2015
मेजर प्रियमवदा चौबे	एन आर—21708 एन	27 जनवरी 2015
मेजर तमन्ना	एन आर—21709 डब्ल्यू	27 जनवरी 2015
मेजर रूचिका शर्मा	एन आर—21712 डब्ल्यू	27 जनवरी 2015
मेजर मीना शर्मा	एन आर—21713 वाई	27 जनवरी 2015
मेजर सपना रियाल	एन आर—21714 एफ	27 जनवरी 2015
मेजर सौभाग्य के एम	एन आर—21715 के	27 जनवरी 2015
मेजर जीमोल जॉन	एन आर—21716 एम	27 जनवरी 2015
मेजर मौसमी दास	एन आर—21717 पी	27 जनवरी 2015
मेजर सिंधु पी के	एन आर—21718 एक्स	27 जनवरी 2015

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

कैप्टन पोरसल्वी डी	एन एस—23348 एफ	18 नवम्बर 2014
--------------------	----------------	----------------

कैप्टन मिनी साइमन एम	एन एस—23301 डब्ल्यू	05 सितम्बर 2014
कैप्टन सुजीता रानी जी	एन एस—23306 पी	05 सितम्बर 2014
कैप्टन जयश्री मारी	एन एस—23312 एच	05 सितम्बर 2014
कैप्टन शैला डी सिल्वा	एन एस—23323 पी	05 सितम्बर 2014
कैप्टन गजलक्ष्मी पी	एन एस—23330 एल	05 सितम्बर 2014
कैप्टन सजीना एस	एन एस—23334 एफ	05 सितम्बर 2014
कैप्टन अन्जु पी शाजु	एन एस—23338 एक्स	05 सितम्बर 2014
कैप्टन नमेशाकपम कल्पना देवी	एन एस—23341 एक्स	05 सितम्बर 2014
कैप्टन मालती कुमारी	एन आर—23006 एन	24 फरवरी 2015

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 205, दिनांक 10 अगस्त 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन पंकज खुराना	(टीए-42792)	(इन्फैन्ट्री)	02 जून 2014
--------------------	-------------	---------------	-------------

कैप्टन बनाया जाता है

लै0 विकटर भट्टाचार्या	(टीए-42800)	(इन्फैन्ट्री)	27 अप्रैल 2015
लै0 प्रेम कुमार लेशराम	(टीए-42801)	(इन्फैन्ट्री)	30 अप्रैल 2015
लै0 लिशम रोवर्ट सिंह	(टीए-42802)	(इन्फैन्ट्री)	30 अप्रैल 2015
लै0 विवेक सिंह	(टीए-42803)	(इन्फैन्ट्री)	01 मई 2015

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, 22nd August 2015
D(MS) SECTION

No. 201, dated 4th August 2015—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Jun 2015 :-

Honorary (Air) ADC

Air Mshl R Rai VM (14669) F(P)

Air Mshl KS Gill AVSM YSM VM (15220) F(P)

REVATI RAMAN

Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 202, dated 5th August 2015—The President is pleased to make the following appointments :-

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Parth Kalyan	TA-42963	(Infantry)	23 Jan 2015
Raghav Raj Singh Ranawat	TA-42968	(Infantry)	01 Mar 2015
Sameer Godbole	TA-42970	(Infantry)	26 Feb 2015
A Sharad Naidu	TA-42971	(Infantry)	15 Mar 2015
Anurag Singh Chouksey	TA-42972	(Infantry)	24 Mar 2015
Aditya Dahiya	TA-42973	(Infantry)	01 Apr 2015
Naveen Anbalagan	TA-42974	(Infantry)	09 Apr 2015
Suryaprakash Kompalli	TA-42975	(Infantry)	18 Apr 2015
Rohit Srivastav	TA-42976	(Infantry)	12 May 2015
Devendra Singh	TA-42977	(Infantry)	08 Jun 2015
Parashram Dalavi	TA-42961	(Infantry)	22 Jan 2015
Protik Sengupta	TA-42962	(Infantry)	22 Jan 2015
Kohito Achumi	TA-42964	(Infantry)	25 Jan 2015
Neil Shaji	TA-42967	(Infantry)	23 Jan 2015

The President is pleased to make the following appointments :-

TERRITORIAL ARMY
ANTE DATE SENIORITY

SS-38658K, Ex MAJ Kundan Lal Pandey, now TA-42929N Lieutenant Kundan Lal Pandey has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 18 Jun 2014 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted 09 years and 60 days (wef 02.09.2000 to 31.10.2009) ante date seniority with effect from 18 Apr 2005 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Maj with effect from 18 Jun 2014. Also the officer is promoted with notional seniority in the rank of Captain with effect from 18 Apr 2009 and MAJ wef 18 Apr 2013 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regs 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

IC-62874, Ex MAJ Vikas Dhankhar, now TA-42928L Lieutenant Vikas Dhankhar has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 13 Jun 2014 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted 11 years 03 months and 22 days (wef 10.12.2002 to 31.03.2014) ante date seniority with effect from 21 Feb 2003 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his

ante date seniority, he is promoted as Maj with effect from 13 Jun 2014. Also the officer is promoted with notional seniority in the rank of Captain with effect from 21 Feb 2007 and MAJ wef 21 Feb 2011 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regs 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

SS-42398F, Ex Lieutenant Chetan Sharma, now TA-42946N Lieutenant Chetan Sharma has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 29 Sep 2014 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted 05 years 11 months and 17 days (wef 17.03.2007 to 16.03.2012 with ante date seniority wef 20.03.2005) ante date seniority with effect from 12 Oct 2008 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Capt with effect from 29 Sep 2014. Also the officer is promoted with notional seniority in the rank of Captain with effect from 12 Oct 2012 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regs 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 203, dated 6th August 2015—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equiv) to be Maj Gen (& equiv)

SPS Kochar (MR-04152Y)	-	10-12-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-05-14.
Sudhir Rai (MR-04265F)	-	30-04-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-04-15.
AK Sharma (MR-04267M)	-	01-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-15.

Surg Capt (& equiv) to be Surg Cmde (& equiv)

SC Gupta (MR-05043Y)(76163-Y)	-	17-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-09-12.
----------------------------------	---	--

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

R Jayaswal (MR-07045H)	-	17-04-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-01-14
---------------------------	---	---

Lt Col to Col (Time Scale)

MR-05634A	LT COL	VS KHUNGA	01 JUN 2012
MR-06065K	LT COL	DEEP SHARMA	01 DEC 2014
MR-06139N	LT COL	SUBODH KUMAR	04 FEB 2015
MR-07043X	LT COL	PK JASPAL	16 FEB 2015
MR-06704A	LT COL	PT SELVARAJ	22 APR 2015
MR-07144L	LT COL	ANU LAL	09 MAR 2014
MR-07140P	LT COL	BHASWATI GHOSH	01 SEP 2011

MR-06005P	LT COL	ASEEM TANDON	01 JUN 2014
MR-06013N	LT COL	SK SHELLEY	08 JUN 2014
MR-06314X	LT COL	RAJEEV MR	22 OCT 2014
MR-06082K	LT COL	SK RASTOGI	01 DEC 2014
MR-06026L	LT COL	S NARAYAN	01 DEC 2014
MR-06056H	LT COL	RAJESH KHANNA	01 DEC 2014
MR-06068X	LT COL	SUNIL JAIN	01 DEC 2014
MR-06079K	LT COL	P KHANDURI	01 DEC 2014
MR-06077Y	LT COL	AS KUSHWAHA	01 DEC 2014
MR-06081F	LT COL	KD SINGH	01 DEC 2014
MR-06144Y	LT COL	SATISH KUMAR	19 DEC 2014
MR-06145F	LT COL	ABHAY SINGH	19 DEC 2014

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-05829L (AF-19585-L)	WG CDR	SAJAN SETHI	01 JUN 2013
MR-06702P (AF-20801-F)	WG CDR	T BHARATI	10 NOV 2013
MR-05984M (AF-19983-N)	WG CDR	MUDIT SHARMA	01 DEC 2013
MR-05985P (AF-19984-S)	WG CDR	PRASHANT GUPTA	01 DEC 2013
MR-05995Y (AF-20107-R)	WG CDR	SAMIDHA DWIVEDI	28 DEC 2013
MR-06007A (AF-20184-H)	WG CDR	ML THAMBI	01 JUN 2014
MR-06705H (AF-21391-G)	WG CDR	T LALITHA	20 FEB 2015
MR-06706L (AF-21390-B)	WG CDR	S SAINI	28 FEB 2015

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-06457X (75429-B)	SURG CDR	KB RANA	12 JAN 2012
MR-06176F (75477-N)	SURG CDR	S MURALEEKRISHNAN	09 MAR 2014

Major to be Lt Col

SN Ganeshan (MR-08733N), AMC	05 Oct 2012
Basundhara Roy (MR-08684W), AMC	07 Jan 2014
Monal Kansra (MR-08329Y), AMC	19 Feb 2014
Arun Kumar Yadav (MR-07737X), AMC	04 Mar 2014
Biradar Malhari Vishwambhar (MR-08816Y), AMC	06 Mar 2014
Atul Sharma (MR-08402M), AMC	22 Mar 2014
Amit Kumar (MR-07808N), AMC	02 Aug 2014
Shamik Kr Paul (MR-07799X), AMC	02 Aug 2014
Santosh Kumar Mishra (MR-08223M), AMC	25 Feb 2013
Jafar Husain (MR-07733F), AMC	04 Mar 2014
Sushil Kumar (MR-08307A), AMC	08 Mar 2014

Vishal Chopra (MR-08618N), AMC	27 Nov 2014
Prasanta Kumar Dash (MR-08506N), AMC	28 Nov 2014
Kumar Pushkar (MR-08726X), AMC	03 Dec 2014
Prateek Yadav (MR-08709X), AMC	04 Dec 2014
Arun Prasad B (MR-08400F), AMC	10 Dec 2014
Rupsingh Parmar (MR-08971A), AMC	16 Dec 2014
Deepak A Dwivedi (MR-08908L), AMC	16 Dec 2014
Rohit Tandon (MR-08460W), AMC	07 Apr 2014
Gaurav Monga (MR-08729L), AMC	06 Nov 2014
AW Kashif (MR-07859F), AMC	04 Jan 2015
Ashok Kumar (MR-07858Y), AMC	04 Jan 2015
Ashutosh Chaturvedi (MR-07901P), AMC	04 Jan 2015
Abhijeet Avasthi (MR-07905L), AMC	04 Jan 2015
Kiran Upadhyay (MR-07866X), AMC	04 Jan 2015
Vinay Kumar Sharma (MR-07876F), AMC	04 Jan 2015
Jitendra Sharma (MR-07897X), AMC	04 Jan 2015
TP Shashikala (MR-07849X), AMC	04 Jan 2015
Yamuna Jai Kishan (MR-08316F), AMC	21 Jan 2013
Sweta Sinha (MR-08901F), AMC	21 Jan 2013
Nitika Singh (MR-07749M), AMC	04 Mar 2014
Ashish Kumar Shukla (MR-08750N), AMC	04 Dec 2014
R Praveen (MR-08391L), AMC	09 Dec 2014
N Magesh Kumar (MR-08388L), AMC	09 Dec 2014
Gautam Singh (MR-08508Y), AMC	03 Jan 2015
Manoj Kumar (MR-07884A), AMC	04 Jan 2015
Pareesh Singhal (MR-07893F), AMC	04 Jan 2015
Harmanjot Singh Dhillon (MR-07889Y), AMC	04 Jan 2015
Badal Parikh (MR-07862F), AMC	04 Jan 2015
Sirisha Anne (MR-07911Y), AMC	04 Jan 2015
Arpit Garg (MR-07907W), AMC	04 Jan 2015
Sankalp Seth (MR-07875Y), AMC	04 Jan 2015
Mukul Bajpai (MR-07635F), AMC	28 Sep 2013
Omna Shaki (MR-08293L), AMC	26 Feb 2014
Ajit Bhardwaj (MR-08302F), AMC	02 Apr 2014
G Diva Reddy (MR-07886L), AMC	04 Jan 2015
Rajat Chaudhary (MR-09500Y), AMC	22 Jan 2015
Komal Sharma (MR-08932F), AMC	17 Feb 2015
Ananth Babu Chirumamilla (MR-07922L), AMC	22 Feb 2015
Janmeet Singh Kullar (MR-07918H), AMC	22 Feb 2015
Ankur Joshi (MR-07863K), AMC	01 Mar 2015
Rakesh Sharma (MR-07898A), AMC	04 Jan 2015

Alok Jaiswal (MR-08481M), AMC	17 Feb 2015
Anurag Jain (MR-08469L), AMC	17 Feb 2015
Nimish Gaur (MR-08691M), AMC	17 Feb 2015
Shreeshail Belagavi (MR-08486L), AMC	17 Feb 2015
Gaurav Mittal (MR-07722P), AMC	04 Mar 2014
Seema Sharma (MR-08476F), AMC	08 Dec 2014
Tanu Tripathi (MR-08478M), AMC	09 Dec 2014
Devendra Kumar Gupta (MR-07864M), AMC	04 Jan 2015
Pramil Kumar (MR-07896P), AMC	04 Jan 2015
Puneet Aggarwal (MR-07874W), AMC	04 Jan 2015
Richa Joshi (MR-07869L), AMC	04 Jan 2015
Girish Kumar Parganiha (MR-07895M), AMC	04 Jan 2015
Munish Sharma (MR-07899H), AMC	04 Jan 2015
Sunil Goyal (MR-07882P), AMC	04 Jan 2015
Dheeraj Kumar (MR-07892Y), AMC	04 Jan 2015
Manvindu Jha (MR-07885H), AMC	04 Jan 2015
Prince Arvind (MR-07910W), AMC	04 Jan 2015
Govind Menon (MR-07852X), AMC	04 Jan 2015
Eranki Sibi (MR-07850M), AMC	04 Jan 2015
Jitendra Kumar Sharma (MR-08412W), AMC	21 Jan 2013
Rahul Sinha (MR-07705P), AMC	04 Mar 2014
Gyan Ranjan (MR-07806H), AMC	02 Aug 2014
Rajnish Kumar (MR-07904H), AMC	04 Jan 2015
Manish Prasad (MR-07887N), AMC	04 Jan 2015
Madabhushi Shyam (MR-07851P), AMC	04 Jan 2015
Puneet Saxena (MR-07846K), AMC	04 Jan 2015
Atul Kumar Srivastava (MR-07871H), AMC	04 Jan 2015
Vijay Bohra (MR-07883X), AMC	04 Jan 2015
Suyash Goel (MR-07912F), AMC	04 Jan 2015
Kamlesh Kumar Singh (MR-07900M), AMC	04 Jan 2015
Shivani (MR-08940A), AMC	22 Jan 2015
Vinod Kumar (MR-08620L), AMC	27 Jan 2015
Capt to be Major	
Arshiya (MR-09501F), AMC	30 Dec 2013
Madan Gopal Vishnoi (MR-09299Y), AMC	26 Feb 2013
Pritam Priyansu Purohit (MR-08879F), AMC	11 Feb 2014
Sanjay Singh Rawal (MR-08883K), AMC	11 Feb 2014
Love Kumar Tomar (MR-08877W), AMC	11 Feb 2014
Rankeen Raj (MR-08869X), AMC	11 Feb 2014
Garvit Bagga (MR-8846W), AMC	11 Feb 2014
Safal Muhammed MK (MR-08652N), AMC	01 Feb 2013
Sunny Pathania (MR-09006H), AMC	10 Feb 2015
Ankur Rawat (MR-09008N), AMC	10 Feb 2015
Puspashree Acharya (MR-09012W), AMC	10 Feb 2015
Ajay Kumar Sharma (MR-09014F), AMC	10 Feb 2015
Sanjeev Malik (MR-09017P), AMC	10 Feb 2015
Pratyush Chandra Madhur (MR-09030Y), AMC	10 Feb 2015

Shivi Gupta (MR-09033M), AMC	10 Feb 2015
Satish Kumar Godara (MR-09043W), AMC	10 Feb 2015
Abhishek Shrivastava (MR-09441X), AMC	28 Jul 2013
Vikas Verma (MR-09416Y), AMC	14 Aug 2013
Arunjeet Singh (MR-09504P), AMC	22 Jan 2014
Arvind Kumar Yadav (MR-09498M), AMC	01 Feb 2013
Amit Kumar Garg (MR-09013Y), AMC	10 Feb 2015
Kumar Anand Shruti Raaj (MR-09003P), AMC	10 Feb 2015
Shilpa Bajpai (MR-09021X), AMC	10 Feb 2015
Nitesh Kumar (MR-09018X), AMC	10 Feb 2015
Nirbhesh Saxena (MR-09020P), AMC	10 Feb 2015
Ritesh Acharya (MR-08999A), AMC	10 Feb 2015
Sharma Pradeep Brijkishor (MR-08965M), AMC	06 Sep 2011
Anubhav Singh (MR-09027Y), AMC	10 Feb 2015
Thokchom Bishwajit Singh (MR-09038L), AMC	10 Feb 2015
Mahesh Muraleedharan Thundathil (MR-09023H), AMC	10 Feb 2015
Balachandra Menon (MR-09036A), AMC	10 Feb 2015
Deepu V Joy (MR-09031F), AMC	10 Feb 2015
KV Vinu Balraam (MR-08984X), AMC	10 Feb 2015
Amen Dhillon (MR-08990L), AMC	10 Feb 2015
Sonal Khandelwal (MR-08993Y), AMC	10 Feb 2015
Rahul Goel (MR-08996M), AMC	10 Feb 2015
Ritwik Mishra (MR-09032K), AMC	10 Feb 2015
Sanjog Tripathy (MR-09005A), AMC	10 Feb 2015
Ranjan Kumar (MR-09007L), AMC	10 Feb 2015
Adil A Kalam (MR-09042N), AMC	10 Feb 2015

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Saurabh Tandon (MR-08523N) (75829N), AMC	01 Jan 2015
Partha Bhuyan (MR-08619W) (75831T), AMC	13 Jan 2015
Aparna Krishnamurthy (MR-09105L) (75935-B) AMC	22 Jan 2015
Sadaf Shaheen (MR-08592K) (75850K), AMC	27 Jan 2015
Mahesh Singh Hada (MR-08248Y) (75785N), Navy	21 Jan 2013
Rajurkar Makarand Trimbakrao (MR-08250W) (75793F) Navy	21 Jan 2013
Harminder Singh (MR-07719P) (75805H), Navy	04 Mar 2014
Sourabh Bhutani (MR-07748K) (75982K), Navy	04 Mar 2014
Udaya IB (MR-08903M) (75847B), Navy	29 Sep 2014
Brijesh Kumar Soni (MR-08464M) (75825B), Navy	28 Nov 2014
Bharat Khemji Jani (MR-08465P) (75827H), Navy	06 Dec 2014
Mirza Saleem Amjad (MR-07868H) (75812Z), Navy	04 Jan 2015
Ajay Nathan (MR-08480K) (75830R), Navy	05 Jan 2015

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Manas Ranjan Mishra (MR-08991N) (76089B), AMC	10 Feb 2015
Faheem Raja (MR-08998X) (76088A), AMC	10 Feb 2015
Swati Garg (MR-08927W) (76035F), AMC	10 Aug 2014
Rajiv Ranjan Dubey (MR-08988 N) (76087Z), AMC	10 Feb 2015

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Raj Kumar P Sajane (MR-08431F) (AF-26066L), AMC	18 Jan 2012
M Harish Kumar (MR-07867A) (AF-26938H), AMC	04 Jan 2015
Sangappa Shanker Rao (MR-08441L) (AF-26473R), AMC	05 Jul 2012
Thyelnai Dawn Khaling (MR-08435X) (AF-26496S), AMC	21 Jan 2013
Parul Goel (MR-08492Y) (AF-27640L), AMC	24 Nov 2014
Karam Chandrajit Singh (MR-07890N) (AF-26940F), AMC	04 Jan 2015
Raj Mohan (MR-07693L), (AF-26907H), AMC	04 Mar 2014
Vijoy Kumar Jha (MR-07741A) (AF-26909R), AMC	04 Mar 2014
Anuj Singhal (MR-07718M) (AF-26912R), AMC	04 Mar 2014
Sachin Rathore (MR-09093F) (AF-28868R), AMC	22 Sep 2014

Flt Lt to be Sqn Ldr

Vinil I Elenjickal (MR-08928Y), (AF-30704T), AMC	10 Aug 2014
--	-------------

D V SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

REGULAR ARMY
MILITARY NURSING SERVICE
(PERMANENT COMMISSION)

No. 204, dated 7th August 2015—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officer with effect from the date mentioned against the each name:-

Colonel to Brigadier

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
BRIG PARINITA KHANNA	NR-17065 K	11 MAR 2015
BRIG G VASANTHA KUMARI	NR-16945 N	13 OCT 2014

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Lt Col (S) Uma Pradhan	NR-18588 P	07 May 2014
Lt Col (S) Thresiamma T K	NR-18693 L	15 Dec 2014
Lt Col (S) Sushma Patait	NR-18704 M	19 Jan 2015
Lt Col (S) Mary George	NR-18519 Y	03 Feb 2014
Lt Col (S) Syamala M G	NR-18639 X	20 Aug 2014
Lt Col (S) Shantibala K	NR-18666 F	01 Oct 2014
Lt Col (S) Suseela Joseph	NR-18485 W	20 Aug 2014
Lt Col (S) Neelam Kanwar	NR-18542 M	20 Aug 2014
Lt Col (S) Annamma Thomas	NR-18659 L	01 Oct 2014
Lt Col (S) Ishrat Jahan	NR-18424 Y	22 Sep 2014
Lt Col (S) K Lakshmi	NR-18442 F	11 Feb 2014
Lt Col (S) Sobhana M V	NR-18576 A	25 Aug 2014
Lt Col (S) Jessy Philip	NR-18462 P	20 Aug 2014

Major to Lt Col (TS)

LT COL(TS)	CHANDRANI ROY	NR-20986 P	21 Feb 2015
------------	---------------	------------	-------------

Capt to Maj

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF PROMOTION
MAJ	POOJA UPADHYAYA	NS	21603K	22/09/2014
MAJ	RACHNA AGGARWAL	NS	21605P	22/09/2014
MAJ	SUBHKAMNA THAPA	NS	21606X	22/09/2014
MAJ	DIVYA S NAIR	NS	21612L	22/09/2014
MAJ	CHITHIRA BABU	NS	21613N	22/09/2014
MAJ	SUMAN SEKHAWAT	NS	21616F	22/09/2014
MAJ	MOHITA SAMBYAL	NS	21618M	22/09/2014
MAJ	SMITA SAHOO	NS	21619P	22/09/2014
MAJ	ANURADHA CHHETRI	NS	21620K	22/09/2014
MAJ	MADHUMITA DAS	NS	21622P	22/09/2014
MAJ	LATA SUNDRIAL	NS	21627N	22/09/2014
MAJ	BOBIN JOSEPH	NS	21630N	22/09/2014
MAJ	ANJU SV	NS	21633F	22/09/2014
MAJ	DEEPIKA	NR-21700F		27/01/2015
MAJ	NAMRATA KRIPLANI	NR-21701K		27/01/2015
MAJ	POONAM SINGH	NR-21702M		27/01/2015
MAJ	JISHA JOHNSON	NR-21703P		27/01/2015
MAJ	JANKI BHATT	NR-21704X		27/01/2015
MAJ	ANITA DASS	NR-21705A		27/01/2015
MAJ	ARJITA RATURI	NR-21706H		27/01/2015
MAJ	MEENAKASHI MOHAL	NR-21707L		27/01/2015
MAJ	PRIYAMVADA CHAUBEY	NR-21708N		27/01/2015
MAJ	TAMANNA	NR-21709W		27/01/2015
MAJ	RUCHIKA SHARMA	NR-21712W		27/01/2015
MAJ	MEENA SHARMA	NR-21713Y		27/01/2015
MAJ	SAPNA RIYAL	NR-21714F		27/01/2015
MAJ	SOUBHAGYA K M	NR-21715K		27/01/2015
MAJ	GEEMOL JOHN	NR-21716M		27/01/2015
MAJ	MOUSUMI DAS	NR-21717P		27/01/2015
MAJ	SINDHU P K	NR-21718X		27/01/2015

Lt to Capt

Rank	& Name	Pers No.	Date of Promotion
CAPT	PORSELVI D	NS-23348 F	18 NOV 2014
Capt	Mini Simon M	NS-23301 W	05/09/2014
Capt	Sujitha Rani G	NS-23306 P	05/09/2014
Capt	Jayasree Marri	NS-23312 H	05/09/2014
Capt	Shaila D Silva	NS-23323 P	05/09/2014
Capt	Gajalakshmi P	NS-23330 L	05/09/2014
Capt	Sajina S	NS-23334 F	05/09/2014
Capt	Anju P Shaju	NS-23338 X	05/09/2014
Capt	Nameirakpam Kalpana Devi	NS-23341 X	05/09/2014
Capt	Malti Kumari	NR-23006 N	24 FEB 2015

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 205, dated 10th August 2015—The President is pleased to make the following promotion :

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

		To be Maj	
Capt	Pankaj Khurana	TA-42792	(Infantry)
		02 Jun 2014.	
		To be Capt	
Lt Victor Bhattacharya	TA-42800	(Infantry)	27 Apr 2015.
Lt Prem Kumar Laishram	TA-42801	(Infantry)	30 Apr 2015
Lt Lisham Robert Singh	TA-42802	(Infantry)	30 Apr 2015.
Lt Vivek Singh	TA-42803	(Infantry)	01 May 2015

B B JOSHI
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in